



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1944 (श0)
(सं0 पटना 389) पटना, मंगलवार, 21 जून 2022

पत्र सं०-6 एस०एस०(11) 01/2018-1954
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर, भा०प्र०से०,
सरकार के पर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-19-06-2018.

XX
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

द्वारा:-

विषय :-

XX

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹ 4031.6436 लाख (चालीस करोड़ एकतीस लाख चौसठ हजार तीन सौ साठ) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों सहित सपोर्टिंग पद का सृजन, आधारभूत संरचना का विकास एवं अन्य विविध कार्यों पर होने वाले व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹ 4031.6436 लाख (रुपये चालीस करोड़ एकतीस लाख चौसठ हजार तीन सौ साठ) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज के लिए 270 (दो सत्तर) अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों सहित सपोर्टिंग पद का सृजन, आधारभूत संरचना का विकास एवं अन्य विविध कार्यों पर होने वाले व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन का त्वरित गति से विकास आवश्यक है क्योंकि इससे ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा और राज्य की अर्थ व्यवस्था में उनका योगदान होगा। इसके लिए मत्स्य तकनीक से संबंधित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान को प्रयोगशाला से सरजमीन पर उतारने हेतु डा० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के परिसर में उपलब्ध संरचनाओं एवं भूखंड पर मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज को स्थापित करने तथा कार्यरूप देने के लिए अकादमिक,

प्रशासनिक पद एवं सपोर्टिंग स्टाफ के पद सहित 270 नये पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है ताकि माह जुलाई, 2018 से अकादमिक सत्र का प्रारंभ 40 छात्रों से किया जा सके। साथ ही इस महाविद्यालय के द्वारा उच्च कोटि का मत्स्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जा सके। सृजित एवं स्वीकृत पदों का वेतनमान एवं ग्रेड पे सहित विवरण निम्न प्रकार है :-

Sl. No.	Designation	No. of Proposed Post	Pay Scale and Grad pay/Pay Band
ACADEMIC CUM ADMINISTRATIVE POSTS			
1	Dean	01	37400-67000+ 10000 (GP) UGC/PB-4
2	Professor	15	37400-67000+ 10000 (GP)
3	Associate Professor	27	37400-67000 + 9000 (GP)
4	Assistant Professor	42	15600-39100 + 6000 (GP)
Total :-		85	
NON TEACHING & SUPPORTING STAFF			
5	Assistant Engineer	1	15600-39100 + 6600 (GP)
6	Student Welfare Officer	1	15600-39100 + 6600 (GP)
7	Assistant Librarian	1	15600-39100 + 6000 (GP)
8	Medical Officer	1	15600-39100 + 5400 (GP)
9	Assistant Comptroller	1	15600-39100 + 5400 (GP)
10	PS to Dean	1	9300-34800 + 4800 (GP)
11	Junior Engineer	1	9300-34800 + 4600 (GP)
12	Accountant	2	9300-34800 + 4600 (GP)
13	Multi Task Office Assistant	24	9300-34800 + 4200 (GP)
14	Library Assistant	1	9300-34800 + 4200 (GP)
15	Farm Manager	1	9300-34800 + 4200 (GP)
16	Hatchery Manager	2	5200-20200 + 4200 (GP)
17	IT Technician-cum-Website Manager	2	5200-20200 + 4200 (GP)
18	Lab Equipment Maintenance Technician	1	5200-20200 + 4200 (GP)
19	Wet Lab Supervisor	2	5200-20200 + 4200 (GP)
20	Cashier	1	5200-20200 + 2800 (GP)
21	Livestock/Farm/Lab Assistant	24	5200-20200 + 1900 (GP)
22	Audio Visual Technician-cum-Photographer	1	5200-20200 + 2400 (GP)
23	Physical Training Instructor (PTI)-cum-Hostel Care Taker	4	5200-20200 + 2400 (GP)
24	Plumber	2	5200-20200 + 2000 (GP)
25	Medical Lab Attendant	3	5200-20200 + 2000 (GP)
26	Carpenter	2	5200-20200 + 2000 (GP)
27	Clerk-cum-Storekeeper	3	5200-20200 + 1900 (GP)
28	Electrician	3	5200-20200 + 1900 (GP)
29	Compounder	1	5200-20200 + 1900 (GP)
30	Driver	6	5200-20200 + 1900 (GP)
31	Lab. Attendant	12	5200-20200 + 1900 (GP)
32	Pump Operator	3	5200-20200 + 1900 (GP)
33	Library Attendant	2	5200-20200 + 1800 (GP)
34	Security Guard	16	5200-20200 + 1800 (GP)
35	Multi Tasking Staff	50	5200-20200 + 1800 (GP)
36	Fisherman	10	5200-20200 + 1800 (GP)
Total:- Non Teaching & Supporting Staff		185	
Grand Total :-		270	

3. वर्तमान में पशु विज्ञान, गव्य तकनीकी, मत्स्य विज्ञान एवं सहबद्ध विज्ञान से संबंधित जो भी संस्थान हैं वे कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुये थे जिनकी प्राथमिकता कृषि विज्ञान और उद्यान का विकास है। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुये बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन डा० कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के परिसर में कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संरचनाओं यथा अकादमिक एवं प्रशासनिक भवन, होस्टल, छात्रावास भवन, आवासीय भवन एवं फार्म भवन तथा इसके अतिरिक्त तालाब के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले भूमि पर मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज को कार्य रूप देने के लिए अकादमिक-सह-प्रशासनिक पद सहित सपोर्टिंग स्टाफ के पद की स्वीकृति प्रदान की गई है ताकि मत्स्य से संबंधित तकनीक का राज्य में विस्तार एवं प्रसार हो सके एवं महाविद्यालय अपने मूर्त रूप को प्राप्त कर लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। इन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य में स्थापित **“बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना”** के अधीन डा० कलाम, कृषि महाविद्यालय किशनगंज के परिसर में **“मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज”** की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है।
4. मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज राज्य में मत्स्य विज्ञान से संबंधित शिक्षा अनुसंधान, विस्तार एवं प्रसार आदि का कार्य करेगा ताकि राज्य में मात्स्यिकी से संबंधित सहबद्ध विज्ञान का विकास हो सके। यह महाविद्यालय **“बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना”** का अंगीभूत अंग होगा।
5. नवगठित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना राज्य में इसी उद्देश्य से की गई है कि पशु विज्ञान, पशुपालन, गव्य तकनीक एवं मत्स्य विज्ञान से संबंधित सहबद्ध विज्ञान का विकास हो सके। इसी क्रम में अधिसूचित अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लेखित शिक्षण संस्थान डा० कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के परिसर में मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज की स्थापना की जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा आवश्यक संरचना एवं आवश्यक भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें सरकार की स्वीकृति प्राप्त है। मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज अपने मूर्त रूप में प्राप्त कर सके। इसलिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के साथ आकादमिक एवं प्रशासनिक पद के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के पदों का सृजन किया गया है ताकि यह महाविद्यालय द्वारा मत्स्य से संबंधित शिक्षा का प्रसार करने में सक्षम हो सके।
6. वित्तीय वर्ष 2018-19 में होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष-2415 -कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा उपमुख्य शीर्ष-03 -पशुपालन लघु शीर्ष-277-शिक्षा मांग संख्या-02-उपशीर्ष-0101 -बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड- 02-2415032770101, के तहत विभिन्न विषय शीर्षों यथा विषय शीर्ष-0101.31.04 -सहायक अनुदान-वेतन, विषय शीर्ष-0101.31.05-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं 0101.31.06 -सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्रथम अनुपूरक आगणन से उपबंधित होने वाली राशि से विकलनीय होगा। यह राशि मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज की स्थापना को कार्य मूर्त देने के लिए आधारभूत संरचना एवं महाविद्यालय पर होने वाले अन्य विविध कार्यों पर व्यय किया जायेगा। इसके लिए राशि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को बी०टी०सी० फार्म-42 पर निकासी कर अथवा आर०टी०जी०एस० के माध्यम से एकमुश्त उपलब्ध कराया जायेगा। विवरणी क एवं ख संलग्न।
7. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. वर्तमान वित्तीय वर्ष में मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं है। इसलिए इस वर्ष योजना एवं विकास विभाग से अतिरिक्त उद्ब्यय प्राप्त कर प्रथम अनुपूरक आगणन एवं बी०सी०एफ० से राशि प्राप्त कर मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज के कार्यों को मूर्त रूप देने हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का यह दायित्व होगा कि प्राप्त राशि का उपयोग मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना, आधारभूत संरचना एवं अन्य विविध कार्यों पर व्यय कर महाविद्यालय को मूर्त रूप देने का कार्य तथा उपयोगिता प्रामाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अंदर निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना एवं विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।
10. निदेशक, पशुपालन/मत्स्य, बिहार, पटना का यह दायित्व होगा कि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज हेतु उपलब्ध कराये गये राशि का उपयोग कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति पर किया जा रहा है अथवा नहीं इसका अनुश्रवण कर विभाग को वस्तुस्थिति से प्रत्येक माह मंतव्य के साथ अनुश्रवण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।
11. दिनांक-16.03.2018 को समपन्न लोक वित्त समिति की बैठक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यवाही संचिका सं०-6 एस०एस०(11) 01/2018 के पृष्ठ 96-95/प०.
12. दिनांक-29.05.2018 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-02 के रूप में सम्मिलित करते हुये इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। संचिका सं०-6 एस०एस०(11) 01/2018 के पृष्ठ-38/टि०.
13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(11) 01/2018 के पृष्ठ 40-41/टि० तथा डायरी संख्या-35, दिनांक- 13.06.2018.

14. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

व्यय विवरणी-क

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मात्स्यकी महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना पर होने वाले संभावित व्यय से संबंधित व्यय विवरणी

(Amount in Rs.)

SN.	Proposed Name of the Post	No. of Posts	Pay Structure			GP	Entry Level Basic Pay on Direct Rect.	3 % Incr.	Round Ten	Unit wise Amount	DA @ 180%
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
	NPS	H.R.A.	C.T.A.	Wash. Allow.	Med. Allow	Total (9+15)		Salary for 1 year		Remarks	
	11	12	13	14	15	16		17		18	
1	Dean	1	37400-67000			10000	47400	-	47400	47400	85320
	11850	4740	1000	-	200	150510		1806120			
2	Professor	15	37400-67000			10000	47400	-	47400	711000	1279800
	177750	71100	15000	-	3000	2257650		27091800			
3	Associate Professor	27	37400-67000			9000	46400	-	46400	1252800	2255040
	313200	125280	27000	-	5400	3978720		47744640			
4	Assistant Professor	42	15600-39100			6000	21600	-	21600	907200	1632960
	226800	181440	42000	-	8400	2998800		35985600			
5	Assistant Engineer	1	15600-39100			6600	22200	-	22200	22200	39960
	5550	2220	1000	-	200	71130		853560			
6	Student Welfare Officer	1	15600-39100			6600	22200	-	22200	22200	39960
	5550	2220	1000	-	200	71130		1806120			

SN.	Proposed Name of the Post	No. of Posts	Pay Structure			GP	Entry Level Basic Pay on Direct Rect.	3 % Incr.	Round Ten	Unit wise Amount	DA @ 180%
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
	NPS	H.R.A.	C.T.A.	Wash. Allow.	Med. Allow	Total (9+15)			Salary for 1 year		Remarks
	11	12	13	14	15	16			17		18
7	Assistant Librarian	1	15600-39100			6000	21600	-	21600	21600	38880
	5400	2160	1000	-	200	69240			830880		
8	Medical Officer	1	15600-39100			5400	21000	-	21000	21000	37800
	5250	2100	1000	-	200	67350			808200		
9	Assistant Comptroller	1	15600-39100			5400	21000	-	21000	21000	37800
	3525	2100	1000	-	200	65625			787500		
10	PS to Dean	1	9300-34800			4800	14100	-	14100	14100	25380
	3475	1410	1000	-	200	45565			546780		
11	Junior Engineer	1	9300-34800			4600	13900	-	13900	13900	25020
	3475	1390	1000	-	200	44985			539820		
12	Accountant	2	9300-34800			4600	13900	-	13900	27800	50040
	6750	2700	2000	-	400	89690			1076280		
13	Multi Task Office Assistant	24	9300-34800			4200	13500	-	13500	324000	583200
	81000	32400	24000	-	6000	1050600			12607200		
14	Library Assistant	1	9300-34800			4200	13500	-	13500	13500	24300
	3375	1350	1000	-	200	43725			524700		

SN.	Proposed Name of the Post	No. of Posts	Pay Structure			GP	Entry Level Basic Pay on Direct Rect.	3 % Incr.	Round Ten	Unit wise Amount	DA @ 180%
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
	NPS	H.R.A.	C.T.A.	Wash. Allow.	Med. Allow	Total (9+15)		Salary for 1 year		Remarks	
	11	12	13	14	15	16		17		18	
15	Farm Manager	1	9300-34800			4200	13500	-	13500	13500	24300
	2350	940	1000	-	200	42290		507480			
16	Hatchery Manager	2	5200-20200			4200	9400	-	9400	18800	33840
	4700	1880	2000	-	400	61620		739440			
17	IT Technician-cum-Website Manager	2	5200-20200			4200	9400	-	9400	18800	33840
	4700	1880	2000	-	400	61620		739440			
18	Lab Equipment Maintenance Technician	1	5200-20200			4200	9400	-	9400	9400	16920
	2350	940	1000	-	200	30810		369720			
19	Wet Lab Supervisor	2	5200-20200			4200	9400	-	9400	18800	33840
	4000	1600	2000	-	400	60640		727680			
20	Cashier	1	5200-20200			2800	8000	-	8000	8000	14400
	2000	800	1000	-	200	26400		316800			
21	Livestock/Farm/Lab Assistant	24	5200-20200			1900	8000	-	8000	272000	489600
	64600	25840	34000	-	6800	892840		10714080			
22	Audio Visual Technician-cum-Photographer	1	5200-20200			2400	7600	-	7600	7600	13680
	1900	760	1000	-	200	25140		301680			

SN.	Proposed Name of the Post		No. of Posts	Pay Structure		GP	Entry Level Basic Pay on Direct Rect.	3 % Incr.	Round Ten	Unit wise Amount	DA @ 180%
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10
		NPS	H.R.A.	C.T.A.	Wash. Allow.	Med. Allow	Total (9+15)		Salary for 1 year		Remarks
		11	12	13	14	15	16		17		18
23	Physical Traning Instructor (PTI)-cum-Hostel Care Taker		4	5200-20200		2400	7600	-	7600	30400	54720
		7200	2880	4000	-	800	100000		1200000		
24	Plumber		2	5200-20200		2000	7200	-	7200	14400	25920
		3600	1440	2000	120	400	47880		574560		
25	Medical Lab Attendant		3	5200-20200		2000	7200	-	7200	21600	38880
		5400	2160	3000	180	600	71820		861840		
26	Carpenter		2	5200-20200		2000	7200	-	7200	14400	25920
		3550	1420	2000	120	400	47810		573720		
27	Clerk-cum-Storekeeper		3	5200-20200		1900	7100	-	7100	21300	38340
		5325	2130	3000	180	600	70875		850500		
28	Electrician		3	5200-20200		1900	7100	-	7100	21300	38340
		5325	2130	3000	180	600	70875		850500		
29	Compounder		1	5200-20200		1900	7100	-	7100	7100	12780
		1775	710	1000	60	200	23625		283500		
30	Driver		6	5200-20200		1900	7100	-	7100	42600	76680
		10650	4260	6000	360	1200	141750		1701000		

SN.	Proposed Name of the Post	No. of Posts	Pay Structure			GP	Entry Level Basic Pay on Direct Rect.	3 % Incr.	Round Ten	Unit wise Amount	DA @ 180%
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
	NPS	H.R.A.	C.T.A.	Wash. Allow.	Med. Allow	Total (9+15)		Salary for 1 year		Remarks	
	11	12	13	14	15	16		17		18	
31	Lab. Attendant	12	5200-20200			1900	7100	-	7100	85200	153360
	21300	8520	12000	720	2400	283500		3402000			
32	Pump Operator	3	5200-20200			1900	7100	-	7100	21300	38340
	5325	2100	3000	180	600	70845		850140			
33	Library Attendant	2	5200-20200			1800	7000	-	7000	14000	25200
	3500	1400	2000	120	400	46620		559440			
34	Security Guard	16	5200-20200			1800	7000	-	7000	112000	201600
	28000	11200	16000	11520	3200	383520		4602240			
35	Multi Tasking Staff	50	5200-20200			1800	7000	-	7000	350000	630000
	87500	35000	50000	36000	10000	1198500		14382000			
36	Fisherman	10	5200-20200			1800	7000	-	7000	70000	126000
	17500	7000	10000	7200	2000	239700		2876400			
	Total Academic/ Administrative Post	270					514200		514200	4612200	8301960
	1145500	549600	280000	56940	57200	15003400		180993360			

(कुल अठारह करोड़ नौ लाख तिरानवे हजार तीन सौ साठ) मात्र।

मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

विवरणी-ख

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मात्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज की स्थापना, परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं गैर वेतन पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी (समेकित)

(राशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	0101.31.04 —सहायक अनुदान वेतन	1809.9336
2	0101.31.05 —सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण	1000.50
3	0101.31.06 —सहायक अनुदान गैर वेतन	1221.21
योग :-		4031.6436

(कुल रुपये चालीस करोड़ एकतीस लाख चौसठ हजार तीन सौ साठ) मात्र।

मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 389-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>